



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 1977/फाल्गुन 19, 1898

No. 119]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 1977/PHALGUNA 19, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th March 1977

S.O. 224(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by Central Bank of India, establishes, with effect from the 10th March, 1977, a Regional Rural Bank in the State of Bihar under the name of Vaishali Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Mazaffarpur, Vaishali and Sitamarhi in the State of Bihar.

[No. F. 4-135/76-AC(I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1977

क्र० आ० 224 (अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार,

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अनुरोध पर 10 मार्च, 1977 से वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं. फा० 4-135/76-ए०सी० (1)]

**S.O. 225(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India, by which Vaishali Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Muzaffarpur as the place where Vaishali Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 4:135/76-AC (II).]

**का० आ० 225(अ).**—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के परामर्श से मुजफ्फरपुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं. फा० 4-135/76-ए०सी० (2)]

*New Delhi, the 10th March 1977*

**S.O. 226(E).**—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Vaishali Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-135/76-AC(III)]

K P A. MENON, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1977

**का० आ० 226(अ).**—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. फा० 4-135/76-ए०सी० (3)]

के० पि० ए० मेनन, अपर सचिव।

### RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

*Bombay, the 10th March 1977*

**S.O. 227(E).**—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Vaishali Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarpur.

[DBOD. No 150/INCL./C. 102/77.]

J. C LUTHER, Dy. Governor.

**भारतीय रिजर्व बैंक**

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

बम्बई, 10 मार्च, 1977

क्र० आ० 227 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात्,—

वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर ।

[डी० बी० ओ० डी० सं० 150/आई एन सी एल/सी 102/77]

जे० सी० लूथर, उप-गवर्नर ।

